

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 20—दिसम्बर 26, 2014 (अग्रहायण 29, 1936)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 20—DECEMBER 26, 2014 (AGRAHAYANA 29, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

हैदराबाद—500052, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

सं. 15011/15/2014—स्था.—स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (सी.एच.एस.—I सेक्शन), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 10 नवम्बर, 2014 के ज्ञापन संख्या ए-12025/447/2014—सी.एच.एस.—I के अनुसरण, में डॉ. पाल्ले प्रशान्त ने पे-बैंड—3 रु. 15,600—39,100/— ग्रेड पे रु. 5,400/— + अगले आदेश जारी होने तक समय-समय पर स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ते के अंतर्गत तथा दिनांक 10 नवम्बर 2014 के उपर्युक्त ज्ञापन में दिए गए निबंधन एवं शर्तों के आधार पर दिनांक 21 नवम्बर 2014 को पूर्वानुमति में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण किया। वे, उनकी नियुक्ति दिनांक 21 नवम्बर 2014 से दो वर्ष के लिए परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

डॉ. टी. के. विनोद कुमार
संयुक्त निदेशक(प्रशा./वरि.पाठ्य.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

सं. ओ.दो.4008/2014-कार्मिक(चि.अ.)—राष्ट्रपति जी डॉ. नागराजू अम्बाटी, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपए 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 27.11.2014 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ए. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 27 नवम्बर 2014

सं. 1/6(4)/2010-पावर/4999—राष्ट्रपति, इस विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों, जो न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनपीसीआईएल) में स्थायी प्रतिनियुक्ति पर हैं, को अगले आदेश होने तक स्थानापन्न आधार पर उनके सामने उल्लिखित ग्रेड एवं निम्न विवरण के अनुसार नियुक्त करते हैं :—

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति ग्रेड	वेतन बैंड (रु.)	ग्रेड वेतन (रु.)	इकाई
1.	अशोक भद्रेचा	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	पीबी-3 रु. 37,400— 67,000/-	रु. 8,900/-	आरएपीपी-7 व 8
2.	अरुण कुमार मित्तल	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	पीबी-3 रु. 37,400— 67,000/-	रु. 8,900/-	टीएपीएस-1 व 2

2. क्र.सं. 1 और 2 के अधिकारियों ने दिनांक 01.07.2014 (पूर्वाह्न) से अपने निचले पद का कार्यभार त्याग दिया है।

ए. सुकुमारन
अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद

मुम्बई-400094, दिनांक 25 नवम्बर 2014

सं. पऊनिप/प्रशा./I/77—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित अधिकारी को अगले आदेश तक परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी), मुम्बई में उनके नाम के सामने उल्लिखित दिनांक से वैज्ञानिक अधिकारी (सी) ग्रेड में नियुक्त करते हैं :—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वेतन बैंड (रु.)	दिनांक
1.	श्री राकेश एडुमूक्कला	पीबी-3 (रु. 15,600—39,100/- + रु. 5,400/-)	22.07.2014 (पूर्वाह्न)

श्रीमती संगीता आर. नाखवा
प्रशासन अधिकारी—III

नागर विमानन मंत्रालय

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

सं. ए-19011/42/2014-स्था.II—राष्ट्रपति जी श्री चन्द्रनन कुमार, उड़नयोग्यता अधिकारी, महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय की केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5(1) (क) के अधीन नोटिस जो 31.08.2014 को सरकारी सेवा से त्यागपत्र के संबंध में है, को स्वीकार करते हैं। अतः श्री चन्द्रनन कुमार, उड़नयोग्यता अधिकारी, महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय को 31 अगस्त 2014 के प्रभाव से उनकी ड्यूटी से कार्यमुक्त कर दिया गया।

पवन मालवीय
उपनिदेशक प्रशासन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़
कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
चंडीगढ़, दिनांक 28 नवम्बर 2014

सं. आर ओ सी/560(5)/एफ टी ई/2013—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है :—

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
1	35345	बल्यू बर्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीचियूट प्राइवेट लिमिटेड
2	37397	विन बिज्मकट प्राइवेट लिमिटेड
3	32373	ग्रोथ इनफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4	25472	शिवा ग्लोबल रिसाईकलींग प्राइवेट लिमिटेड
5	32776	शुभंम फिनटेक सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड
6	37845	एएमसी डिवैलपरस एंड कन्सल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
7	35988	डू वैल्यू मरचेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
8	32257	नासा लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
9	31530	एजूएक्सैल कॉलेज प्राइवेट लिमिटेड
10.	34846	स्पैफलैक्स इनफोटेक् प्राइवेट लिमिटेड
11.	32931	जिनोसी प्रोफेशनल सल्यूशनस प्राइवेट लिमिटेड
12.	09822	महावीर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
13	24177	फलाई फोरेन ईमीग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड
14	30666	के एस वरायच एगो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
15	34372	सिंडीकेट प्रोजेक्ट कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
16	32282	उर्जाटेक् एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
17	25479	एक्सीलेंट एनवायरमेंट सल्यूशनस प्राइवेट लिमिटेड
18	32254	औरेंज स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
19	34442	रिलीफ वैंचरस एंड मार्किटिंग प्राइवेट लिमिटेड
20	33235	नाईट्स ब्रिज फार्नैशियल कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
21	34541	ग्रेटर बठिंडा इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
22	31947	विजन इनफायनाईट कैरियर कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
23	35401	नाईट्स ब्रिज होल्डिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
24	35002	कौटीनम एनर्जी सल्यूशनस प्राइवेट लिमिटेड
25	32146	ईस्ट वैस्ट एयरलिनक्स प्राइवेट लिमिटेड

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
26	32457	फोर्चूनस वेंचरस प्राइवेट लिमिटेड
27	32021	पुशतिक एडीबल्स प्राइवेट लिमिटेड
28	30367	आनंद डैटा विजन प्राइवेट लिमिटेड

सत्या पाल सिंह
सह रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़
पंजाब एण्ड चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

छत्तीसगढ़-495001, दिनांक 4 दिसम्बर 2014

सं. कर-सह-शा.स./छ.ग./560(5)/2014/1245—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1	U92100CT2011PTC022703	टी टयूब इंटरटेन्मेंट प्राइवेट लिमिटेड
2	U27100CT2009PLC021178	फॉस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
3	U74200CT2010PLC022122	सेन्टल इंडिया मेगा इण्डस्ट्रीयल स्टेट लिमिटेड
4	U27100CT2000PTC014142	एस0 अग्रवाल आयरन प्राइवेट लिमिटेड
5	U70102CT2009PTC021103	बीएमडी कोलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
6	U40101CT2007PLC020471	रुद्राक्ष एनर्जी लिमिटेड
7	U52100CT2010PTC021641	कीर्ति कोमोटेड प्राइवेट लिमिटेड
8	U13200CT2010PTC021568	कीर्ति माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
9	U55101CT1984PTC002340	प्रिया बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड
10	U45200CT2009PTC021276	अल्ट्रा यूनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
11	U26931CT2003PTC015673	बठोनिया केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
12	U45201CT2007PTC020410	एआईएम बिडर्स एन्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
13	U26999CT2004PTC016577	नोबेल मेटल्स एन्ड एलौस प्राइवेट लिमिटेड
14	U45200CT2011PTC022400	दीक्षा यूनिक कन्सट्रक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
15	U74140CT2012PTC000589	सुरदेश प्लेसमेंट एन्ड ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड
16	U74900CT2007PTC020395	ए0 एस0 कम्बाईन प्राइवेट लिमिटेड
17	U27100CT2009PTC021426	बी0 जी0 इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
18	U74920CT1996PTC011045	एच0 एस0 डिस्ट्रेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड
19	U70101CT2010PLC021580	सेलिसटिएल इन्फ्रॉन इंडिया लिमिटेड
20	U30007CT2001PTC014872	इनोविजिन कन्सलटेन्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
21	U52100CT2012PTC000548	गोल्ड मैजिक मार्केटिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
22	U02424CT2006PTC018421	इको केयर एग्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
23	U02922CT2005PLC017617	सिम्पलेक्श इन्डस्टीज लिमिटेड
24	U01403CT2009PTC021175	ब्रॉयलर इन्डस्टीज प्राइवेट लिमिटेड
25	U74210CT2010PTC021861	स्पोन्जी टेक कन्सलटिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
26	U24246CT2008PTC020847	कुकरेजा कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड
27	U70101CT2011PLC022611	जे एम डी डेवकोन प्राइवेट लिमिटेड
28	U45202CT2006PTC020074	आर एस वी क्रिएसन्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U00171CT2004PTC017172	विपुल जूट प्राइवेट लिमिटेड
30	U72200CT2005PTC017885	बायनेरी एडवान्तेज प्राइवेट लिमिटेड
31	U45200CT2009PTC021453	शिव साईं टेलीकम्यूनिकेशन एन्ड कन्सल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
32	U72900CT2009PTC021193	फोर टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
33	U52392CT2002PTC014994	ए के नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड

रमेश कुमार साहू
कम्पनी रजिस्ट्रार—सह—शासकीय समापक
छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

शिलांग—793001, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

सं. क./र./शि./560(5)/2014/2460-75—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है :—

क्रमांक	सिन नम्बर	कम्पनी का नाम
1	U55101AS2010PTC009894	घोश ब्रोडश होटल(तेजपूर) प्राइवेट लिमिटेड
2	U26940AS2009PLC009135	एरोटेक सिमेन्टस लिमिटेड
3	U26940AS2009PTC009190	रोकसेम सिमेन्टस प्राइवेट लिमिटेड
4	U74140AS2006PTC008088	बोदोलेन्ड इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
5	U70101AS2005PTC007894	बी एन आर एसोसीयटस प्राइवेट लिमिटेड
6	U51909AS2010PTC007894	सुरक्षा इन्ट्रैड प्राइवेट लिमिटेड
7	U65921AS2010PTC009842	जे एन्ड बी एनरजी एन्ड फायनन्सेयल कन्सलटेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
8	U85110AS1998PTC005448	ट्रीटवेल लेप प्राइवेट लिमिटेड
9	U33119AS2008PTC006053	बायोक्राट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
10	U29248AS1993PTC003888	नेटवर्क इन्जेनरस एन्ड कन्सलटेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
11	U50102AS2010PTC009896	घोश ब्रोडश कारस प्राइवेट लिमिटेड
12	U51397AS2003PTC007223	गोपाल इन्ट्रैड प्राइवेट लिमिटेड
13	U55101AS1999PTC005770	पीजा पालेश प्राइवेट लिमिटेड

क्रमांक	सिन नम्बर	कम्पनी का नाम
14	U50200AS2010PTC010102	घोश ब्रोदश ओटो(इन्डिय) प्राइवेट लिमिटेड
15	U50102AS2010PTC010141	घोश ब्रोदश कारस (इन्डिय) प्राइवेट लिमिटेड
16	U27101AS2011PTC010618	घोश ब्रोदश इस्टील(इन्डिय) प्राइवेट लिमिटेड

मुक्तार सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
शिलांग

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पुडुच्चेरी, दिनांक 21 नवम्बर 2014

सं. 3(161)/560(5)/2014—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है :—

क्र.सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2175	टैलेंट टेंपल कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड

सी.म. कार्ल मार्क्स
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुडुच्चेरी

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलुरु, दिनांक 4 दिसम्बर 2014

सं. आरओसी/560(5)/एफ टी ई—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है :—

सी.नो.	सीन	कंपनी नाम
1	U40107KA2008PTC046021	एलजे एनर्जी सर्विसेज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2	U80301KA2010PTC055933	ऐएलसी एक्सेल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
3	U80301KA2012PTC064115	एयर बड्डीस अकादमी प्राइवेट लिमिटेड
4	U72200KA2013PTC069961	आईक्लस्टर डेटा सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
5	U40107KA2010PTC053513	ओजस थर्मल एनर्जी शहडोल प्राइवेट लिमिटेड
6	U64203KA2007PTC044350	आईफॉरमाटा कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
7	U24100KA2008PTC045710	अपना सपना ग्रीनेर्जी प्राइवेट लिमिटेड
8	U85100KA2012PTC064967	लिंगेसी हेल्थकेअर प्राइवेट लिमिटेड
9	U72100KA2005PTC038052	टाइमसॉफ्ट आईटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
10	U72200KA2005PTC036774	एनपॉइंट्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड

सी.नो.	सीन	कंपनी नाम
11	U74140KA2007PTC044325	सथ्यम शिवम सुंदरम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
12	U08030KA2004PTC034285	करियर कोऑर्डिनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
13	U63090KA2011PTC056676	रश्मि इको टूरिज्म इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
14	U74999KA2011PTC059847	लाईसिस 31 ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
15	U72200KA2010PTC055576	इंफोटोरोस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
16	U70101KA1996PTC020518	पामजोट प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड
17	U70101KA1996PTC020519	पामराज एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
18	U70101KA1996PTC020522	टार्टन होलडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U18101KA1995PTC019128	ओरियन विशेष (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
20	U74210KA2011PTC057367	जुनिपर एनर्जी सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
21	U85110KA2009PTC050954	त्रिषु हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
22	U70100KA2012PTC063015	इनलैंड इन्फा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
23	U22300KA2008PTC047791	क्वार्क इन्फ्रामीडिआ प्राइवेट लिमिटेड
24	U74995KA2008PTC047792	वेलयूस्ट्रीम कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
25	U72900KA2011PTC059213	डार्कसेंड टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
26	U72200KA2013PTC069240	साईसेन कंसल्टेंसी सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
27	U74900KA2011PTC059658	ऐडीबीसी मार्केटिंग सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
28	U74910KA2008PTC047244	श्री रेणुकाशक्ति एचआरएम कंसल्टेंसी सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
29	U45205KA2013PTC067589	कौनसौक्रीट बिल्डिंग सलूशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
30	U72900KA2013PTC069691	मैक्रोबाईल टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
31	U67120KA2007PTC043932	एलएसडी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
32	U72200KA2007PTC041850	जीमाइंडसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
33	U40107KA2011PTC057088	श्री रेणुका पावर-जेम प्राइवेट लिमिटेड
34	U72300KA2003PTC031583	आईकरा इंफोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
35	U55101KA2006PTC040849	बन फैक्ट्री (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
36	U72200KA2013PTC068882	साईस्टेन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
37	U72200KA2012PTC066825	आई-नरट्यूर सिक्योर आईटी प्राइवेट लिमिटेड
38	U92111KA2008PTC048111	फॉर्मेट फिल्म प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
39	U52399KA2010PTC053022	यू आर आई ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
40	U40103KA2012PTC063730	सन ब्रिलियंस पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
41	U72900KA2011PTC059585	ज़िकवा कॉमटेक प्राइवेट लिमिटेड
42	U93000KA2011PTC059258	ऐप्लस टेस्टिंग लैब्स प्राइवेट लिमिटेड

सी.नो.	सीन	कंपनी नाम
43	U74900KA2013PTC068655	एँफडीएसबीजी ग्लोबल इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
44	U45200KA2011PTC058737	लोकविशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
45	U74140KA2008PTC048096	गॉल्ट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
46	U92100KA2008PTC048459	बॉयोस्कोप पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
47	U74140KA2002PTC030968	लिक एथिकल ट्रेड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
48	U35303KA2006PTC038747	औक एविएशन प्राइवेट लिमिटेड
49	U63013KA2009PTC048843	गरुडा इंटरकस्ट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
50	U14102KA2011PTC058305	श्री गौरव रॉक्स एंड ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
51	U72900KA2009PTC049757	आईएसआईएस कंप्यूटर सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
52	U51109KA2007PTC042024	अल्फा- सोफेमा इंजीनियरिंग & सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
53	U52399KA2009PTC050743	ज़आप मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड

सत्यजित रौल
अस्ट. रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़
कर्नाटक

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 2nd December 2014

No. F-20/2014-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri Surajit Dey, a Member of West Bengal Higher Judicial Service, presently working as Additional Registrar, on deputation basis, as Registrar, Supreme Court of India, on continued deputation, with effect from the afternoon of 29th November, 2014.

M. K. HANJURA
Registrar (Admn. I)

New Delhi, the 1st December 2014

No. F-20/2014-SCA(1)—Ms. Phoolan Wati Arora, Assistant Registrar (Non-Shorthand) has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of November 30, 2014 on her attaining the age of superannuation.

BADR-UL-ISLAM
Dy. Registrar (Admn. I)

The 5th December 2014

No. F-20/2014-SCA(1)—Shri Vimal Jaitley, Deputy Registrar has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of November 30, 2014 on his attaining the age of superannuation.

BADR-UL-ISLAM
Dy. Registrar (Admn. I)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

Hyderabad-500052, the 2nd December 2014

No. 15011/15/2014-Estt.—In pursuance of the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare (CHS-I Section), New Delhi Memorandum No.A.12025/447/2014-CHS-I dated 10th November, 2014, Dr.Palle Prashanth has assumed the charge as Medical Officer in the SVP National Police Academy in the forenoon of 21st November, 2014 in the Pay Band-3 Rs.15,600—39,100/- + Grade Pay Rs.5,400/- + Non Practicing Allowance as admissible from time to time until further orders, on terms and conditions as laid down in the aforesaid Memorandum dated 10th November, 2014. He will be on probation for a period of two years from the date of appointment i.e. w.e.f. 21st November, 2014.

Dr. T. K. VINOD KUMAR
Jt. Dir. (Admn. & SC)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
New Delhi-110003, the 1st December 2014

No. O.II-4008/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Nagraju Ambati, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 27-11-2014(FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG(Pers.)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
Mumbai- 400001, the 27th November 2014

No. 1/6(4)/2010-Power/ 14999—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers of this Department who are on permanent deputation to the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) to the grade as mentioned against each and as detailed below in an officiating capacity until further orders.

Sr. No	Name (S/Shri)	Present Grade	Promoted to Grade	Pay Band (Rs.) PB-3	Grade Pay (Rs.)	Unit
1.	Ashok Bhadrecha	SO/F	SO/G	37400-67000	8900	RAPP – 7 & 8
2.	Arun Kumar Mittal	SO/F	SO/G	37400-67000	8900	TAPS – 1 & 2

2. The officer at Sr.no. 1 & 2 above had relinquished the charge w.e.f. 01.07.2014 (FN) of the lower post held by them.

A.SUKUMARAN
Under Secy.

ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

Mumbai-400094, the 25th November 2014

No. AERB/Adm/I/77/3930—The President is pleased to appoint the following officer in the grade of Scientific Officer (C) in Atomic Energy Regulatory Board (AERB), Mumbai with effect from the date indicated against his name until further orders.

Sr. No.	Name of the Officer	Pay Band and Grade Pay	Date
1.	Shri Rakesh Edumukkala	PB:3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-	22/07/2014(FN)

Smt. SANGEETA R. NAKHWA
Administrative Officer III

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 27th October 2014

No. A-19011/42/2014-E.II—The President is pleased to accept the notice under Rule 5 (1) (a) of the Central Civil Service (TS) Rules, 1965 of Sh. Chandranan Kumar, Airworthiness Officer in the office of the Director General of Civil Aviation regarding resignation from government service with effect from the 31.08.2014. Therefore, Sh. Chandranan Kumar, Airworthiness Officer in the office of the Director General of Civil Aviation stands relieved of his duties with effect from the 31st August, 2014.

PAVAN MALVIYA
Dy. Dir. Admin.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
O/O REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chandigarh, the 28th November 2014

No. ROC/560(5) FTE/2013—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:-

S.No.	Company No	Name of the Company
1	35345	Blue Bird Professional Training Institute Private Limited
2.	37397	Win Bizmkt Private Limited
3.	32373	Growth Infra Projects Private Limited
4.	25472	Shiva Global Recycling Private Limited
5.	32776	Shubham Fintech Services Private Limited
6.	37845	AMC Developers & Construction Private Limited
7.	35988	True Value Merchants Private Limited
8.	32257	Nasa Labs Private Limited
9.	31530	Eduexcell College Private Limited
10.	34846	Speflex Infotech Private Limited
11.	32931	Zinosi Professional Solutions Private Limited
12.	09822	Mahavir Sales Private Limited
13.	24177	Fly Foreign Immigration Private Limited
14.	30666	K S Waraich Agro Foods Private Limited

S.No.	Company No	Name of the Company
15.	34372	Syndicate Project Consultants Private Limited
16.	32282	Urjatech Energy Private Limited
17.	25479	Excellent Environment Solutions Private Limited
18.	32254	Orange Sports Private Limited
19.	34442	Relief Ventures And Marketing Private Limited
20.	33235	Knights Bridge Financial Consultants Private Limited
21.	34541	Greater Bathinda Estate Private Limited
22.	31947	Vision Infinite Career Consultants Private Limited
23.	35401	Knights Bridge Holding Company Private Limited
24.	35002	Continum Energy Solutions Private Limited
25.	32146	East West Airlinks Private Limited
26.	32457	Fortunes Ventures Private Limited
27.	32021	Pushtik Edibles Private Limited
28.	30367	Anand Data Vision Private Limited

SATYA PAL SINGH
Asstt. Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chandigarh-495001, the 4th November 2014

No. RoC-cum-OL-C.G./560(5) /2014/1245—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:-

S. No.	CIN	COMPANY NAME
1	U92100CT2011PTC022703	T CUBE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
2	U27100CT2009PLC021178	FORCE INDUSTRIES LIMITED
3	U74200CT2010PLC022122	CENTRAL INDIA MEGA INDUSTRIAL ESTATE LIMITED
4	U27100CT2000PTC014142	S. AGRAWAL IRON PRIVATE LIMITED
5	U70102CT2009PTC021103	BMD COLONISERS PRIVATE LIMITED
6	U40101CT2007PLC020471	RUDRAKSH ENERGY LIMITED
7	U52100CT2010PTC021641	KRITI COMMOTRADE PRIVATE LIMITED
8	U13200CT2010PTC021568	KRITI MINING PRIVATE LIMITED
9	U55101CT1984PTC002340	PRIYA BAKERS PRIVATE LIMITED
10	U45200CT2009PTC021276	ULTRA UNIQUE INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
11	U26931CT2003PTC015673	BADONIA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
12	U45201CT2007PTC020410	AIM BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
13	U26999CT2004PTC016577	NOBLE METALS AND ALLOYS PRIVATE LIMITED
14	U45200CT2011PTC022400	DIKSHA UNIQUE CONSTRUCTION (INDIA) PRIVATE LIMITED
15	U74140CT2012PTC000589	SURDES PLACEMENT & TRAINING PRIVATE LIMITED
16	U74900CT2007PTC020395	A.S. COMBINE PRIVATE LIMITED
17	U27100CT2009PTC021426	B.G. ISPAT PRIVATE LIMITED
18	U74920CT1996PTC011045	H.S.DETECTIVE PRIVATE LIMITED
19	U70101CT2010PLC021580	CELESTIAL INFRACON (INDIA) LIMITED
20	U30007CT2001PTC014872	INNOVISION CONSULTANCY INDIA PRIVATE LIMITED

S. No.	CIN	COMPANY NAME
21	U52100CT2012PTC000548	GOLD MAGGIC MARKETING SOLUTION PRIVATE LIMITED
22	U02424CT2006PTC018421	ECO CARE AGRO SYSTEM PRIVATE LIMITED
23	U02922CT2005PLC017617	SIMPLEX INDUSTRIES LIMITED
24	U01403CT2009PTC021175	BROILER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
25	U74210CT2010PTC021861	SPONGY TECH CONSULTING ENGINEERS PRIVATE LIMITED
26	U24246CT2008PTC020847	KUKREJA COSMETICS PRIVATE LIMITED
27	U70101CT2011PLC022611	JMD DEVCON LIMITED
28	U45202CT2006PTC020074	RSV CREATIONS PRIVATE LIMITED
29	U00171CT2004PTC017172	VIPUL JUTE PRIVATE LIMITED
30	U72200CT2005PTC017885	BINARY ADVANTAGE PRIVATE LIMITED
31	U45200CT2009PTC021453	SHIV SAI TELECOMMUNICATION AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
32	U72900CT2009PTC021193	FAUR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
33	U52392CT2002PTC014994	A.K.NETWORK PRIVATE LIMITED

R. K. SAHU
Registrar of Companies-cum-Official Liquidator
Chhattisgarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Shillong-793001, the 1st December 2014

No. ROC/SH/560(5)/2014/2460-2475—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:-

SL NO.	CIN NUMBER	NAME OF COMPANY
1.	U55101AS2010PTC009894	GHOSH BROTHERS HOTEL(TEZPUR) PRIVATE LIMITED
2.	U26940AS2009PLC009135	AEROTECH CEMENTS LIMITED
3.	U26940AS2009PTC009190	ROCKCEM CEMENTS PRIVATE LIMITED
4.	U74140AS2006PTC0080888	BOODLAND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
5.	U70101AS2005PTC007894	B N R ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
6.	U51909AS2010PTC009645	SURAKSHA ENTRADE PRIVATE LIMITED
7.	U659221AS2010PTC009842	J & B ENERGY AND FINANCIAL CONSULTANT COMPANY PRIVATE LIMITED
8.	U85110AS1998PTC005448	TREATWELL LAB PRIVATE LIMITED
9.	U33119AS2000PTCOO6053	BIOCRAT HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
10.	U29248AS1993PTC003888	NETWORK ENGINEERS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
11.	U50102AS2010PTC009896	GHOSHBROTHERS CARS PRIVATE LIMITED
12.	U51397AS2003PTC007223	GOPAL ENTRADE PRIVATE LIMITED
13.	U55101AS1999PTC005770	PIZZA PALACE PRIVATE LIMITED
14.	U50200AS2010PTC0010102	GHOSH BROTHERS AUTO(INDIA) PRIVATE LIMITED
15.	U50102AS2010PTC010141	GHOSH BROTHEERS CARS(INDIA)PRIVATE LIMITED
16.	U27101AS2011PTC010618	GHOSH BROTHERS STEEL(INDIA) PRIVATE LIMITED

MUKTAR SINGH
Registrar of Companies
Shillong

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Puducherry-605011, the 21st December 2014

No. 3(161)/2014—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:-

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	2175	M/s. Talent Temple Consulting Private Limited

C. M. KARL MARX
Registrar of Companies
Puducherry

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore, the 4th December 2014

No. ROC/560(5)/FTE—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:-

Sl.NO.	CIN	COMPANY NAME
1	U40107KA2008PTC046021	LJ ENERGY SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
2	U80301KA2010PTC055933	ALC EXCEL EDUCATION PRIVATE LIMITED
3	U80301KA2012PTC064115	AIR BUDDIES ACADEMY PRIVATE LIMITED
4	U72200KA2013PTC069961	ICLUSTERS DATA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
5	U40107KA2010PTC053513	OJAS THERMAL ENERGY SHAHDOL PRIVATE LIMITED
6	U64203KA2007PTC044350	IFORMATA COMMUNICATIONS INDIA PRIVATE LIMITED
7	U24100KA2008PTC045710	APNA SAPNA GREENERGY PRIVATE LIMITED
8	U85100KA2012PTC064967	LEGACY HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
9	U72100KA2005PTC038052	TIMESOFT IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
10	U72200KA2005PTC036774	NPOINTS SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
11	U74140KA2007PTC044325	SATHYAM SHIVAM SUNDARAM MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
12	U08030KA2004PTC034285	CAREER COORDINATORS PRIVATE LIMITED
13	U63090KA2011PTC056676	RASHMI ECO TOURISM INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
14	U74999KA2011PTC059847	LYNCIS 31 ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
15	U72200KA2010PTC055576	INFOTOROS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
16	U70101KA1996PTC020518	PAMJOT PROPERTIES PRIVATE LIMITED
17	U70101KA1996PTC020519	PAMRAJ ESTATES PRIVATE LIMITED
18	U70101KA1996PTC020522	TARTAN HOLDEINGS PRIVATE LIMITED
19	U18101KA1995PTC019128	ORION VISHESH (INDIA) PRIVATE LIMITED
20	U74210KA2011PTC057367	JUNIPER ENERGY SERVICES PRIVATE LIMITED
21	U85110KA2009PTC050954	TRISHU HOSPITALS PRIVATE LIMITED
22	U70100KA2012PTC063015	INLAND INFA PROPERTY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
23	U22300KA2008PTC047791	QUARK INFRAMEDIA PRIVATE LIMITED
24	U74995KA2008PTC047792	VALUESTREAM CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
25	U72900KA2011PTC059213	DARKSAND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
26	U72200KA2013PTC069240	SYSEN CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
27	U74900KA2011PTC059658	ADBC MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED

SI.NO.	CIN	COMPANY NAME
28	U74910KA2008PTC047244	SRI RENUKASHAKTHI HRM CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
29	U45205KA2013PTC067589	CONSOCRETE BUILDING SOLUTION (INDIA) PRIVATE LIMITED
30	U72900KA2013PTC069691	MACROBILE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
31	U67120KA2007PTC043932	LSD SECURITIES PRIVATE LIMITED
32	U72200KA2007PTC041850	GMINDSOFT INDIA PRIVATE LIMITED
33	U40107KA2011PTC057088	SRI RENUKA POWER-GEN PRIVATE LIMITED
34	U72300KA2003PTC031583	IQRA INFOSOFT PRIVATE LIMITED
35	U55101KA2006PTC040849	BUN FACTORY (INDIA) PRIVATE LIMITED
36	U72200KA2013PTC068882	SYSTEM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
37	U72200KA2012PTC066825	I-NURTURE SECURE IT PRIVATE LIMITED
38	U92111KA2008PTC048111	FORMAT FILM PRODUCTION PRIVATE LIMITED
39	U52399KA2010PTC053022	U R I TRADING PRIVATE LIMITED
40	U40103KA2012PTC063730	SUN BRILLIANCE POWER INDIA PRIVATE LIMITED
41	U72900KA2011PTC059585	ZIKVA COMTECH PRIVATE LIMITED
42	U93000KA2011PTC059258	APLUS TESTING LABS PRIVATE LIMITED
43	U74900KA2013PTC068655	FDSBG GLOBAL ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED
44	U45200KA2011PTC058737	LOKAVISION VENTURES PRIVATE LIMITED
45	U74140KA2008PTC048096	GALT CONSULTING PRIVATE LIMITED
46	U92100KA2008PTC048459	BIOSCOPE PICTURES PRIVATE LIMITED
47	U74140KA2002PTC030968	LINK ETHICAL TRADE CONSULTING PRIVATE LIMITED
48	U35303KA2006PTC038747	AUK AVIATION PRIVATE LIMITED
49	U63013KA2009PTC048843	GARUDA INTERCUST SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
50	U14102KA2011PTC058305	SHREE GAURAV ROCKS AND GRANITES PRIVATE LIMITED
51	U72900KA2009PTC049757	ISIS COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED
52	U51109KA2007PTC042024	ALPHA - SOFEMA ENGINEERING & SERVICES PRIVATE LIMITED
53	U52399KA2009PTC050743	ZAAP MARKETING AND TRADING PRIVATE LIMITED

SATYAJIT ROUL
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in